

M.M.G.S.Y. (W.B.)

M.B. No - 478

20-21

Kajalwan Gariyasi to Aguarighat

Schedule XLV Form No. 134.

G.N. Bandh par Sadak Nirmam

DIVISION

Division. Gogri

SUB-DIVISION

Sub. Division. Parbatta

M.B. No - 478

Measurement Book

Deo. Ent. Ptd. 149.

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्तक में मशीन द्वारा अंकित
कुल-100 (एक सौ) पन्ने हैं जिसे
श्री-अरिक्लेश कुमार सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंक 478 परबल्ला
का निशान दिया जाता है।

20.11.20
कार्यालय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य प्रमहल-गोगरी
Bekey
29/11/20

प्रमहल. गोगरी DIVISION
अपर प्रमहल परबल्ला SUB-DIVISION

Re-Issued to M.B.No - 478 from Page No.
to A.E.R.W.D. works Sub-Division Parketta.

EXECUTIVE
Measurement Book
29/11/20
No. 478

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Const. of road from					
Kajalwar Goriyari to					
Agulani ghat G.N. bandh					
Part roadak nirman.					
Name of Agency - DEO Enterprises					
Pvt. Ltd.					
Agreement NO. - 45 SBP/-20-21					
Date of Start - 18.11.2020					

Date of completion - 17.11.2021

Record measurement

Date - 05.11.2021

1. Setting out pillars

prg. & fixing of workings

benchmark pillars etc -

do-do all comp. job -

i) working benchmark

pillar - 2.0 nos.

ii) Reference pillar - 10.0 nos.

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - construction					
road from Khatikawan					
Wardasi to Biquant sheet					
un. Bandh par Sadak					
mirman					
Agency: DEO Satekrisna					
Ltd.					
Date of commencement					
18-11-2020					
Actual Date of completion					
29-06-2023					
Date of entry 29-06-23					
(1) restoration of masonry					
with soil enclosure etc					
- - - - -					
2x10x5m x 1.50m x 0.30m =					4500 ³
2x10x2m x 1.20m x 0.30m =					14.40m ³
2x10x3m x 1.25m x 0.30m =					22.50m ³
2x10x1.50m x 2m x 0.30m =					18m ³
2x5x6m x 1.50m x 0.30m =					27m ³
1x11x6m x 1m x 0.30m =					19.80m ³
u -					146.70m ³
(2) masonry up at becomer /					
shoulder. Stripping of excess					
soil - - - - -					
2x10x5m x 0.90m =					90m ³

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
= 6 m 0					
@ 109.74/each					6882
③ Cutting of Shurks					
from roadway					
cut. hole in the m.s					
P. no ⑥ 1 st no ②					
= 3 m 0					
② 6.73/each					202.70
					202.70
					127652
					127748
Add 12% ins. and 1%					16595
					166072
					144242
					144358
Add S. fee					668
					144915
					144915
					145023
Pl spread					
29/12/24					
J.E					
Stoken					
28/12/24					
J.E					
Pl check calculation					
D.P.					
29/12/24					
Pl					
Material Statement					
E/cum - 135.65 m ³					542
Bitenon - 146 kg					
Stron Agg - 1.84 m ³					121

Continuation